

Marking Scheme

BSEH Model Paper (2024-25)

CLASS: 10th (Secondary)

(Maximum Marks: 20)

Code: A

हिंदुस्तानी संगीत तबला

(Hindustani Music Tabla) Percussion InstrumentD

खंड (1) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न

Section (1) Objective type questions

(01 X 05 = 05)

- प्र01 निम्न में से 12 मात्राओं की ताल कौन-सी है? **01**
उ0 (D) A और B दोनों
- प्र02 ताल देने के लिए किन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है? **01**
उ0 (D) उक्त तीनों सही है।
- प्र03 गायन, वादन और नृत्य की क्रिया में जो समय लगता है उसकी गति को मापने के पैमाने को कहते हैं। **01**
उ0 ताल
- प्र04 अभिकथन (A): ताल को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। **01**
कारण (R): कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है।
उ0 (B) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- प्र05 शुद्ध राग का एक उदाहरण दें? **01**
उ0 विलावल, कल्याण आदि।

खंड (2) अति लघुउत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न

Section (2) Very short answer type questions

(02 X 02 = 04)

- प्र06 छायालंग तथा सकीर्ण राग का एक उदाहरण दें ? **02**
उ0 तिलक कामोद तथा पीलू, भैरवी।
- प्र07 सम तथा खाली का चिह्न लिखें? **02**
उ0 सम X तथा खाली का चिह्न 0 है।

(अथवा)

प्र0 8 विभाग तथा ताली का चिह्न लिखें।

02

उ0 विभाग का चिह्न (|) है तथा ताली का चिह्न 2,3,4,5 है।

खंड (3) लघुउत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न

Section (3) short answer type questions

(03 X 02 = 06)

प्र0 9 तबले के अगों को चित्र सहित वर्णन करें।

03

उ0 तबले के दो रूप होते हैं – दाहिना और बायां। दाहिने तबला जो लकड़ी का खोखला बना होता है तथा जिस पर खाल मढ़ी होती है। दूसरा बाया तबला या डुग्गी जो मिट्टी अथवा किसी धातु का बना होता है। इस पर भी खाल मढ़ी होती है। दोनों तबलों के विभिन्न अगों को जैसे दाया व बायां किससे बना होता है तथा इसमें पूड़ी, स्याही, चांटी, मैदान, गजरा, गट्टे, बद्धी, गुडरी आदि बारे चित्र सहित विवरण देने पर पूरे अंक दिये जायेंगे।

प्र0 10 मोहरा की परिभाषा दें?

03

उ0 मोहरा – मोहरा और मुखड़ा में केवल स्थान भेद है। तबला वादन में ठेका प्रारंभ करने से पूर्व जिस रचना को बजाकर सम पर आते हैं उसे मोहरा कहते हैं। यदि ठेका बजाने के बाद या बीच से 9वीं या 13वीं मात्रा से बजाकर सम पर आते हैं तो उसे मुखड़ा कहते हैं।

(अथवा)

प्र011 अल्ला रखा खां के जीवन परिचय बारे वर्णन करें।

03

उ0 उस्ताद अल्ला रखा का जन्म 29 अप्रैल 1919 में फगवाल ग्राम आज का जिला सांबा में जम्मू में हुआ था। उनकी मातृभाषा डोगरी थी। यह एक भारतीय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते थे। वह सितार वादक रवि शंकर के लगातार संगतकार थे। उनके पुत्र जाकिर हुसैन एक प्रख्यात तबला वादक हैं। इन्होंने अपना करियर लाहौर में एक सहयोगी के रूप में किया और फिर 1940 में बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो के एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया। इनके तीन बेटे थे— जाकिर हुसैन, फज़ल कुरैशी, तौफीक कुरैशी और दो बेटियां थीं। इनको पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया। आखिर में उनका निधन 03 फरवरी 2000 को सिमला हाउस में दिल का दौरा पड़ने पर हो गया।

खंड (4) दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न

Section (4) Long answer type questions

(05 X 01 = 05)

उ0 उतर और दक्षिणी भारतीय संगीत स्वरलिपि में निम्नलिखित विभिन्नताएं हैं—

1. दोनों के मद्रं सप्तक के स्वर तो एक जैसे हैं परन्तु उनके लिखने के चिह्न अलग-अलग हैं जैसे उतर भारतीय संगीत में मद्रं सप्तक में नीचे बिन्दु लगती है जबकि दक्षिणी भारतीय संगीत में स्वरों के ऊपर बिन्दु लगाई जाती है।
2. दोनों स्वरलिपियों में से उतरी भारतीय संगीत में तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिन्दु लगती है जबकि दक्षिणी संगीत में स्वरों के नीचे हलन्त लगाया जाता है।
3. ताल में सम के स्थान पर उतर भारतीय संगीत में काटे का निशान लगाया जाता है जबकि दक्षिणी संगीत में एक लिखा जाता है।
4. ताल में खाली के स्थान पर उतर भारतीय संगीत में शून्य का निशान लगाया जाता है जबकि दक्षिणी संगीत में जमा अर्थात् प्लस का चिह्न लिखा जाता है।

उतर और दक्षिणी भारतीय संगीतस्वरलिपि की समानता बारे लिखें ।

उतर और दक्षिणी भारतीय संगीत स्वरलिपि में निम्नलिखित समानताएं हैं—

1. उतर और दक्षिणी भारतीय संगीतस्वरलिपि दोनों के मध्य सप्तक के स्वर एक जैसे हैं इसमें दोनों कोई चिह्न नहीं लगाते।
2. दोनों स्वरलिपियों में से उतरी भारतीय संगीत में मीड का चिह्न स्वरों के ऊपर उल्टा अर्द्धचंद्र लगते हैं।
3. ताल में विभाग के लिए उतर भारतीय संगीत और दक्षिणी संगीत में एक खड़ी लम्बी रेखा का निशान लगाया जाता है।
4. ताल में मात्राओं के स्थान पर उतर भारतीय संगीत में और दक्षिणी संगीत में भी कोई विभिन्नता नहीं है। दोनों एक जैसे गिनती में एक से शुरू करते हैं।

(अथवा)

(OR)

प्र0 13 चौताल का एक व दो गुन लिखें।

चौताल का एक गुन

चिह्न	X	0	2	0	3	4						
मात्राएं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बेल	धा	धा	दिं	ता	किट	धा	दिं	ता	तिट	कत	गदि	गन

चौताल का दो गुन

चिह्न	X	0	2	0	3	4						
मात्राएं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बेल	धाधा	दिंता	किटधा	दिंता	तिटकत	गदिगन	धाधा	दिंता	किटधा	दिंता	तिटकत	गदिगन

नोट – दो गुन में सभी दो दो बोलो के नीचे अर्द्धचंद्र।